### PVR

### **PVR LIMITED**

Registered Office: - 61, Basant Lok, Vasant Vila New Delhi - 110 057 Corporate Office - Block A, 4th Floor, Building No. DLF Cyber City, Phase - III, Gurgaon - 122002 T - 991-124 - 4708100, Fax - +91-124 - 4708101 Website - www. pricinemas.com CIN: L74899DL 1995PLC067827

### NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of the Shareholders of PVR Limited will be held on Tuesday, the 20° September, 2015 at 10:30 a. m at Mapple Emeratid, Rajoleri, NH-8, New Delhi- I [10038, to transact the business as mentioned in the Notice dated 22" July 2015 convening the AGM which has been sent to the

members.

Notice is also given that pursuant to the provision of Section 91 of the Companies Act 2013, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from 22" September, 2015 (Tuesday) to 29" September, 2015 (Tuesday) to 29" September, 2015 (Tuesday) to 29" September, 2015 (Tuesday) to 20" September, 2015 (Tuesday) to 20" Asy inclusive) for the said AGM of the Company and payment of dividend, if approved at Asy influenced in the 20".

the said AGM of the Company and payment of dividend, if approved at the AGM.

As indicated in the Notice, the Company is providing remote e-voting facility to the shareholders of the Company to enable them to east their votes electronically on all Ordinary and Special Business items forming part of the Notice of AGM.

The remote e-voting of the shareholders/ beneficial owners shall be recknoned on the equity shares held by them as on 22" September, 2015 being the CUT-OFF DATE for the purpose. The shareholder of the company holding share either in physical or demantarizated form, on the said cut-off date, may cast their vote electronically. Remote e-voting share either in plospite of the motice dated 22" July, 2015 has been sent by registered post and/or e-mail. The Company has engaged KARVY Computershare Pv. Ltd. for providing remote e-voting platform. Members who have acquired shares after the dispatch of the Notice and before the Cut-Off Date may approach the Companylacry for issuance of the User ID and Password for providing the control of the Notice and before the Cut-Off Date may approach the Companylacry for issuance of the User ID and Password for providing the control of the Notice of the Noti

Members present at the AGM will be entitled to east their vote by way of poll.

Members are requested to refer the Notice for E-voting procedure and take note of the following information:

Date of Completion of sending Notice of 2<sup>48</sup> September, 2015

AGM

Jone and time of commencement of voting | 20<sup>48</sup> September, 2015 at 900 am Date and time of commencement of visiting 20° Septembers, 2013 at 9.00 a.m 
Date in all most of english of visiting from the control of the company where 
Mortine and and an office Company where 
Mortine and and an office Company where 
Mortine and Anni Andrews 
Contant details of the presen responsible 
to a soldness the given someword with 
the source of visiting 
The Company 
The Company

\*The remote e-voting will not be allowed beyond the said date and time.

By order of the Board
For PVR Limited

Date: 4<sup>th</sup> September, 2015 Place: Gurgaon

### WINSOME DIAMONDS AND JEWELLERY LIMITED (Formerly Su-Raj Diamonds and Jewellery Limited)

wirrscome DiaMonos ARD JEWELLERY L.

(Formerly Su-Ra) Diamonds and Jewellery Limi
(Formerly Su-Ra) Diamonds and Jewellery Limi
(Formerly Su-Ra) Diamonds and Jewellery Limi
(Formerly Su-Ray Control Control Control Control

Repd. Office: Alcoholory Control

Repd. Office: SoloRoy 7096, The Plaza, 0° Ploor, 55, Gamdely,
Grant Placel, Mumbel. 4-00 007.

Phone: (102) 4004746 & (022) 44370344

all: cst 0 windowspeeling from Website: view www.

NOTICE

Notice is hereby given that here 20th Armaal General Meeting of Wincome Diamonds and Javeollery mind will be held on Wedenseady, 30th September, 2015 at 12:30 pm. mid will be held on Wedenseady, 30th September, 2015 at 12:30 pm. at Mahdab Bhavan, Icchanath, Opp. SVR. Engineering College, Dumas Road, Surat - 395 007. The Notice setting out the business to be transacted at the meeting together with the copy of the Annual Report of the Company for the Financial Year 2014-2015 has been dispatched to all members at their registered address by courier and the same is also available on our website www.misomeigveelmet.com.

A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on the hard of member. Such a proxy need not be a member of the Company, A person can act as proxy on aggregate not more than ten percent of the total share capital of the Company, Proxies, in order to be effective, should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the meeting.

NOTICE is also signed hat pursuant to Section 91 of the Companies

Company. Proxises, in order to be effective, should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the meeting.

NOTICE is also given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Fules, 2014, the Registrar of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from Thurday, 2014, and 19 of the Proximation of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, the Company is offering remote e-voting facility to its members and the business as set out in the Notice of AdM may be transacted through remote e-voting services provided by Central The details regarding e-voting are au under:

1. The Company has fixed 23rd September, 2015 as the "Cut Off-date to ascertain the eligibility of members for remote e-voting, 2. Any person, who becomes a members of the Company after dispatch of Annual Report and holds have as on the cut-floate to ascertain the eligibility of members for remote e-voting, 2. Any person, who becomes a members of the Company after dispatch of Annual Report and holds have as on the cut-floate to ascertain the eligibility of members for emote e-voting, 2. Any person, who becomes a members of the Company after dispatch of Annual Report and holds have as on the cut-floate to assert the strength of the Notice of AdM to obtain login ID & password for remote e-voting.

3. If the member is already registered with CDSL, then he is requested to use his existing user ID & Password for casting the vote through remote e-voting.

4. Go am and an and 278 Paspenhero. 2515 (60 pm.) during which period the members may cast their vote electronically. The remote e-voting which period the members may cast their vote electronically as well as through ballot paper, the vote as through ballot paper shall also be made available to those members was attend

section or <u>mtps://www.woofingindia.com</u>.

To support green initiative and to receive communications from the Company in electronic mode, members who have not registered their e-mail address so far, are requested to register the same with their DR. if shares are held in demail form, Members holding shares in physical form are requested to register their e-mail address with the Company/Share Transfer Agents viz. Link Initime India Private Limited by gening the community of the Company of the Compa

For WINSOME DIAMONDS AND JEWELLERY LIMITED

COMPANY SECRETARY

### 🌣 Karnataka Bank Ltd.

**PUBLIC NOTICE OF SALE** 

00

			Description of Introvable	Reserve Frice	riace, Date u	
the Borrowers / Guarantors	Address of Secured Creditor	Secured Debt	Secured Asset (Property)	E.M.D	Time of Auction	for submission of Tender with EMI
1) M/s. Galore Packaging India (P) Ltd., Represented by its	Kamataka Bank	Aggregate Amount of Rs.	All that piece and parcel of Industrial plot bearing F-614 constructed	Rs. 1,72,00,000/=	Karnataka Bank Ltd,	On or
Directors a) Mr. Schleise Russtag b) Mr. Keshaiv chard Russigs b) et M. Aley Russigs, brown (pegistered of the 12-14, DDA. A) DAA on the Aley Russigs and the 12-14, DDA on and Factoryst No. F-614. R. BLL Co. Included Area Phase-L, Browness Rosstag, Sch. Mr. B. Bustagi, D-4, Gelmoter (2) Mr. Schleises Rosstag, Sch. Mr. B. Bustagi, D-4, Gelmoter Sch. Mr. Schleises Rosstag, Sch. Mr. B. Bustagi, D-4, Gelmoter Sch. Mr. Schleises Rosstag, Sch. Mr. B. Bustagi, D-4, Gelmoter Sch. Mr. Schleises Rosstag, D-4, Gelmoter Schleises, D-6, Schleises Rosstag, D-4, Gelmoter Schleises, D-6, Schleis	Choudhry Building. 1" Floor, Middle Cirde, Connaught Place, New Delhi - 110001	94033108+50 Le a) Rs.5,07.59,314+50 under Over draft Aforptes future interest from 01-04-2013, b) Rs. 3,46,55,684,00 under Protested Bills aforptes future interest from 01-09-2015 & c) Rs.86,17,810/= under TI. Aforptes future interest from 01-04-2013 plus coets	in the join of land measuring 2001 s after situated at R.I.L.C.D. Industrial Lane Planes is Bleiwalt Biglanth and bendinging to Mt. Galler Packaging and St. Bleiwalt Biglanth and bending to Bid. Galler Packaging and St. Bleiwalt Biglanth and St. Bleiwalt Bid. Property No.7415, West : Road 30 Mir wide, North Road 50 Mirw. South Posephy No.7415. West : Road 30 Mir wide, Physical possession taken on 2247-2015	Rs.17,20,000/=	A-7, Ground Floor, Opp. Ashlyana Bageecha, Bhagat Singh Colomy, Alwar By Pass, Bhiwadi, Alwar Dist, Rajasthan- 301019 13.10.2015 at 2.30 PM	before 12.10.2015 at 4.00 PM
(1) Mis Nabhya Jewellers, Represented by its Partners: a) Mr. Tarun Kumar Summi.	Kamataka Bank Ltd. Plot No.	Amount of Rs.64,23,561.00 under Over Draft A/c with	All that part and parcel of the residential property viz entire ground floor, without roof rights of built up property bearing No. 219-A, area	Rs.57,46,000/=	Karnataka Bank Ltd ARMB, K-2, Choudary	On or before
To hard Anima Summi.  District More Summi.  District More Summi.  District House Summi.  Di		Rs.5,74,600/=	AKMS, N2, Choudary Building, 1" Floor, Middle circle, Connaught Place, New Delhi-110001 15.10.2015 at 11.30 AM	14.10.2015 at 4.00 PM		
	Kamataka Bank Ltd Plot No. 13	Amount of	All that piece and parcel of the residential property bearing property No.4-D,	Rs.81,20,000/=	Karnataka Bank Ltd	On or before
JA, BOOK B, GUIOWara, Monara Nanar, Wougur Chowk, Demi- 110053 2) Mr. Sumit Kumar Sio Mr. Harbir Singh, D4, Block B, Gurdwara,	Ltd Plot No.13, Near Sai Mandir, Main Road, Savita Vihar, Delhi - 110092	Rs. 1,28,18,058=50 Under Over Draft Alc with interest from 01-09-2015 plus costs.	out of Khisera No.333, situated at Old Gurudwara Mohalla, Gall No.6, Moulpur, Illaqu- Shahdara, Delhi comprising of land measuring 100 sq.yard with building constructed thereon belonging to Mr. Harbir Singh. Boundaries: East Gall 10 Pt. wide, West Other Property, North: 15 Pt. wide RS Josuft: Other property Physical possession taken on 09-05-2015	Rs.8,12,000/=	ARMB, K-2,Choudary Building, 1" Floor, Middle circle, Connaught Place, New Delhi-110001 16.10.2015 at 11.30 AM	15.10.2015 at 4.00 PM
Ground Floor, West Patel Nagar, New Delhi-110008 2) Mrs. Tarawati Wio. Mr. Amichand Karala, 24/3, Ground Rocr, West Patel Nagar, New Delhi-110008	Kamataka Bank Ltd Ground Floor, DNO-B-1/13, Mahiya Nagar, New Delhi- 110017	Amount of Rs.38,55,390.00 Under Term Loan Alc with interest from 08-08-2015 plus costs	All that piece and parcel of entire built up Ground Floor (BackSide) measuring about 459 sq. ft., without Terrace/Roof rights in the freehold property bearing No.A.71, West Patil Alagar, New Deibl blookings to McAmichandKralaa and Tarawatt. Boundaries: Easts Phypers, No. 2444, West-Property No.2442, North Road, South-Part of property No.2443 Physical possession taken on 464-07265	Rs.32,00,000/= Rs.3,20,000/=	Karnataka Bank Ltd ARMB, K-2, Choudary Building, 1° Floor, Middle circle, Connaught Place, New Delhi-110001 14.10.2015 at 1.00 PM	On or before 13.10.2015 at 4.00 PM
Moinuddin, 263-644, Main Bazar, Turkman Gate, Delhi- 110006 (2) Mr. Zakir Moinuddin Slo Mr. Nawab Moinuddin, 2263-644, Main Bazar, Turkman Gate, Delhi-110006	Kamataka Bank Ltd Plot No.13, Near Sai Mandir, Main Road, Savita Vihar, Delhi - 110092	Amount of Rs. 1,24,40,040=50 Under Over Draft Alc with interest from 01-09-2015 plus costs.	All that piace and parcel of the residential property bearing private proton No.102. WP. No.4427-28, measuring 7.655 earns its left occ. shawled at 717, Ansart Road, Daryaganji New Delhi-110002 along with reportionate unbidded share in the land undermeath the property belonging to Mr. Zakir Molnuddin.  Boundaries: East Property No. 4467T, West Part of Property Filat No.101, North Main Entrance, South: Part of Property Filat No.101, Physical possession taken on 174-054.	Rs.72,51,000/= Rs.7,25,100/=	Karnataka Bank Ltd ARMB, K-2, Choudary Building,1" Floor, Middle circle, Connaught Place, New Delhi-110001 16.10.2015 at 1.00 PM	On or before 15.10.2015 at 4.00 PM

00

cidental expenses like Stamp duty, Registration fees, Local taxes, and any other statutory dues, etc of 75% of the bid amount within 15 days from the date of confirmation of sale or any other date spe

office hours on any working day.

roperty of Mis Galore Packaging: Branch Head, Kamataka Bank Ltd, New Delhi Overseas Branch, K-2, Choudhary Building, 1<sup>st</sup> Floor, Middle Circle, Co

No.ex 81101510, \$6.6095407.

Die File property of this Nathaya Jewellers - Esnech Head-Kurnataka Bank Ltd. Plot No.613071, Man Arya Samaj Road-Karolhagh, New Delhi - 110005 Pried1+2372144227

G) For the property of this Nathaya Jewellers - Senach Head-Karolhagh Sami Ltd. Plot No. 51307 He So. 1 Mars - Sa Manch, Klain Road-Sovia Visu, Dini - 111012 Priol 1
G) For the property of this Nathaya Sewellers - Senach Head-Karolhagh Sami Ltd. Plot No. 51307 Head Sovia Visu, Dini - 111012 Priol 1
G) For the property of this Nathaya Sewellers - Senach Head-Karolhagh Sami Ltd. Plot No. 51307 Head-Karolhagh Sami Ltd.

For this Nathaya Sewellers - Senach Head-Karolhagh Sami Ltd.

For this Nathaya Sewellers - Senach Head-Karolhagh Sami Ltd.

For this Nathaya Sewellers - Senach Head-Karolhagh Sami Ltd.

For this Nathaya Sewellers - Senach Head-Karolhagh Sami Ltd.

For this Nathaya Sewellers - Senach Head-Karolhagh Sami Ltd.

For this Nathaya Sewellers - Senach Head-Karolhagh Sami Ltd.

For this Nathaya Sewellers - Senach Head-Karolhagh Sami Ltd.

For this Nathaya Sewellers - Senach Head-Karolhagh Sami Ltd.

For this Nathaya Sewellers - Senach Head-Karolhagh Sami Ltd.

For this Nathaya Sewellers - Senach Head-Karolhagh Sami Ltd.

For this Nathaya Sewellers - Senach Head-Karolhagh Sami Ltd.

For this Nathaya Sewellers - Senach Head-Karolhagh Sami Ltd.

For this Nathaya Sewellers - Senach Head-Karolhagh Sami Ltd.

For this Nathaya Sewellers - Senach Head-Karolhagh Sami Ltd.

For this Nathaya Sewellers - Senach Head-Karolhagh Sami Ltd.

For this Nathaya Sewellers - Senach Head-Karolhagh Sami Ltd.

For this Nathaya Sewellers - Senach Head-Karolhagh Sami Ltd.

For this Nathaya Sewellers - Senach Head-Karolhagh Sami Ltd.

For this Nathaya Sewellers - Senach Head-Karolhagh Sami Ltd.

For this Nathaya Sewellers - Senach Head-Karolhagh Sami Ltd.

For this Nathaya Sewellers - Senach Head-Karolhagh Sami Ltd.

For this Nathaya Sewellers - Se

00 •

published in Financial Express dates on 05/08/2015. We hereby intimate general public that the e-Auction of Properties in the Aic. of Monarch Package of India only of Okiba branch is postpond to 29/09/15 from 11am-2pm. EMD date will be 25/09/15 upto 5:00pm and all Terms a condition will remain the same. E-Auction of properties related to all host properties related to all with the association of the properties of the condition will be as scheduled.

# All Advertisement Booking

### 11/000

### **CAREER POINT LIMITED**

egistered Office: CP Tower-1, Road No.1, IPIA, Kota, Rajasthan 324005 Ph: 0744-3040000, Fax: 0744-3040050 CIN: L72200RJ2000PLC016272 | www.cpil.in | investors@cpil.in

### NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. E-VOTING AND BOOK CLOSURE

E-VOTING AND BOOK CLOSURE:

NOTICE is beedy given that the 15th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Career Picet Limited will be held on Startday, 25th days of September, 2015 at A01 PSM. at CP Power 1, 18th, Read No. 1, Kist, Rejasthan 324005 to transact the business as mentioned in the Notice of AGM. ASM alongwith Annual Report for year 2014-15t, have been sant to all members whose email id are egistroned with the Company/Depother Pericipany(1). Playside clopes of the same have been sant to members of the Company for Moster Pericipany(1). Playside clopes of the same have been sant to members of the Company for Moster of AGM is also available on Company is swelsing water to the company for all voting days between 10 AM to 6 PfMupot the date of AGM. Playsist to Section 186 of the Company and Ivolating days between 10 AM to 6 PfMupot the date of AGM.

Company on all working days between 11 AM for 9FMusple to the abort AGM.

Financian to Section 16 of the Companies Act 2013 as anmoderid and with rules and deleter thereunder along with 10 ass 255 of the Listing Agreement, the members are hereby informed that; IT [Selection Characteris Agreement, the members are hereby informed that; IT [Selection Characteris Agreement, the members are hereby 15 has AGM and other documents was done as on September 02, 2015 (27) the «voring that commerce on 2015 at 10 am. 157 and and other documents was done as on September 02, 2015 (27) the severing that commerce on 2015 at 10 am. 157 and will end on 255 his action of the service of the se

September, 2015 at 6.00 pm Inits 1, evoning varience, see miner. But the Current for the State-folders (holding equity whates of 1th Company in both electronic adoptivacion from eligible to sate the viole electronical form eligible to sate the viole electronical form eligible to sate their voice electronical form eligible to sate their voice electronical. The Company has engaged Central Depository Services (Inidia) Limited (CDSL) for facilitating eventing is reventing interesting their personal provide ballet papers for voting to the members greenest at the meeting. The presents who have become Members of the Company after dispatch of notice may obtain the Login D and password as mentioned in the historical of e-voting rection the verbeal of the Company has dispatch of southern Man Man Cupital Advocated for Conducting the evoting process. In case members have any queries regarding a voting members may refer the Frequenty Added Coentrols FADI and e-voting user manual available of voxer.coolingsida.com under his section or well as entire and the control of the conduction of the conduction of the violent and the violent action of the violent action of

Necessary of the Companies of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Clause 16 of the Ustrigo Agreement, the Register of Members and Sharin Trainfer Book of the Company will remain closed from September 19, 2015 to September 26, 2015 (both days inclusive)

For Career Point Limited Tarun Jain GM (Corporate & Legal Affairs) &



DELHI SC/ST/OBC/MINORITIES & HANDICAPPED FINANCIAL & DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (A Govt. of N.C.T. of Delhi Undertaking)
Institutional Area, Ambedkar Bhawan, Sector 16, Rohini, Delhi-110085

### **ADVERTISEMENT**

The Corporation, an undertaking of Govt. of NCT of Delhi, intends to fill-up one post of Company Secretary on contract basis. The details of the qualification as per the approved RR are given as under:

		7.70		
1.	Age Limit	40-45 years		
2.	Pay Scale	Consolidated pay of Rs. 50,000/- per month.		
3.	Educational Qualification	Associated member of the Institute Company Secretaries of India.     Five years' post qualificativexperience as Company Secretary in Govt./Reputed Corporations, or		
		Central/State PSU or any Private listed Company with BSE/NSE.		
4.	Desirable	An associate member of the Institute of Chartered Accountant of India or Degree in Law/ICWA/FCA		

The eligible incumbents should send their application along with (self attested) testimonials to the undersigned at Room No. 106, 1st Floor, Ambedkar Bhawan, Sector-16, New Delhi-110085 so as to reach the undersigned within 30 day from the date of issue of this advertisement.

The Appointing Authority shall have the right to modify/ change any of the criteria at its sole discretion. (S.K.S. Yaday) any of the criteria at its sole discretion. General Manager



LIC NOMURA MUTUAL FUND LIC NOMICHA MICHOLAE FUND

Nomura Mutual Fund Asset Management Company Limited
(Investment Managers to LIC Nomura Mutual Fund)

CIN No: U67190MH1994PLC077858

CIN No: U67190MH1994PLC077858

Registered Office: Industrial Assurance Bildy, 4" Floor, Opp. Churchgale Station, Mumbai - 400 020.

Tel.No.: 022-66016000, Toll Free No.: 1800 256 5678, Fax No.: 022-22880633

Email: service @licnomurant.com • Website: www.icnomurant.com

### NOTICE-CUM-ADDENDUM No. 28 of 2015-2016

Notice is hereby given that LIC Nomura Mutual Fund Trustee Company Private Limited, the Trustee to LIC Nomura Mutual Fund, has approved the following:

Change in Fund Management responsibilities:

Investors are requested to note that Mr. Rahul Singh is been appointed as Fund Manager, Debt w.e.f. 07/09/2015. Details of Mr. Rahul Singh and the schemes he will be managing are as under:

Name	Age	Qualification	Experience	Schemes
Mr. Rahul Singh	33	Bsc Economics Hons., PGDM (MBA) - IIM-A	Fund Manager, Debt LLC Nomure Mutual Fund (w.e.f. 07/09/2015) Boll Avan Fred Income - BOLI AVA Investment Manages (August 2009 - August 2015) Credit Analysi - ING Investment Management (May 2008 - August 2009 - August 2009 - August 2007) Internship - Standard Chartered Bank (April 2007 - May 2007) Research Analyst - Ashika Capital (Jan 2004 to April 2006)	U.C. Nomura MF Bond Func. LIC Nomura MF Monthly income Plan LIC Nomura MF Monthly income Plan LIC Nomura MF Lorent

Mr. Killol Pandya, Senior Debt Fund Manager, ceases to be the Fund Manager of the aforesaid Schemes / Plan and also Key Personnel of AMC (as mentioned in Statement of Additional Information (SAI) with effect from 040/08/2016.

(SAI) with effect from 0409/2015.

This Notice cur addendum shall form an integral part of the Scheme Information Document(s) / Key Information Memorandum(s) of the aforesaid Scheme(s) / Statement of Additional Information of LIC Nomura Mutual Fund as amended from time to time.

All other contents of the Scheme Information Document(s) / Key Information Memorandum(s) / Statement of Additional Information will remain unchanged.

For LIC Nomura Mutual Fund Asset Management Company Ltd.

00

Compliance Officer & Company Secretary Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

### आस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 59 रनों से हराया

द मैच मैथ्यू वेड की नाटआउट 71 रन की पारी और बाद में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से आर बाद म गदबाजा क शानदार प्रदेशन स विश्व चैंपियन आस्ट्रेलिया ने गुरुवार को यहां इंग्लैंड को पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 59 रन से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बनायी। टास जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरे आस्ट्रेलिया ने बीच में 29 रन के अंदर चार विकेट गंवाए और 37वें ओवर में उसका स्कोर छह विकेट पर 193 रन था लेकिन विकेटकीपर बल्लेबाज वेड और आलराउंडर मिशेल मार्श बल्लबाज वह आर आलराउडर ामशल माश (नाटआउट 40) ने 13 ओवर में 112 रन की अट्ट साझेदारी की जिससे आस्ट्रेलिया छह विकेट पर 305 रन बनाने में सफल रहा। इंग्लैंड की तरफ से लेग स्पिनर आदिल राशिद

इंग्लंड को तरफ स लग ।स्पनर आपदल ताशद ने 59 रन देकर चार विकेट लिए। विश्व कप में आस्ट्रेलिया के हाथों 111 रन से हारने वाले इंग्लंड ने अच्छी शुरुआत की और एक समय उसका स्कोर चार विकेट पर 194 रन था लेकिन इसी स्कोर पर तीन विकेट गंवाने से वह उबर नहीं पाया और आखिर में 45.3 ओवर में 246 रन पर आउट हो गया। इंग्लैंड की तरफ से सलामी बल्लेबाज जैसन गय ने सर्वाधिक 67 रन

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 4 सितंबर। कंधे की चोट के

कारण विश्व कुश्ती प्रतियोगिता से हटने वाले दो बार के ओलॅपिक पदक विजेता पहलवान

सुशील कुमार अपनी फिटनेस को बेहतर करने और ओलंपिक की तैयारियों के लिए अमेरिका

जार आलानक का त्यालिय के ताल अनारका जाएंगे। सुशील इसी महीने अमेरिका जाकर करीब ढाई महीने का प्रशिक्षण लेंगे और कुछ कुश्ती चैंपियनशिप में भी हिस्सा लेंगे। लंदन ओलंपिक के राज्य विजेता सुशील ने बताया कि वे इस महीने के मध्य में अमेरिका जाकर प्रशिक्षण लेंगे। उन्होंने बताया मैंने छत्रसाल

प्रशिक्षण लेगे। उन्होंने बताया मैंने छत्रसाल रहेंद्रियम में अपना अप्याद शुरू कर दिखा में में इस महीने के प्याप्य में दो-खंद्र महीने के लिए अमेरिका जाकंगा। इसके लिए मुझे खेल मंत्रालय और भारतीय खेल आधिकरण (साई) से मंजुरी मिल चुकी है। विश्वच वेशियनशिष्म के पूर्व राष्ट्री पक्ति के स्वित्त सुशील ने कहा कि मैं कोलोराडी रिप्रंप्स या उसके पास के एक ट्रेनिंग सेंटर में इस दौरान ट्रेनिंग करूगा में बढ़ा ट्रेनिंग ट्रेनिंग सहल होने जा रही हथ्य कुर्जा प्रित्तामाल में मुक्त होने जा रही हथ्य कुर्जा प्रतिवामिता शिर्ष्स भारतीय तैवारियों के बारे में पूछे जाने पर पूर्णाल ने कहा कि प्रत्वकारों ने असेरिका जाने प पहले सान-अब दिन यहां छत्रसाल स्टेडियम में कहा अप्यास किया था। हम चाहते हैं कि सारतीय पहलवाना इस प्रतिवामिता से ज्यादा से

जनसता सवाददाता नई दिल्ली, 4 सितंबर। जेके टायर रेसिंग चैंपियनशिप के दूसरे दौर का मुकाबला शनिवार से कोयंबटूर के कारी मोटर स्पीडवे पर शुरू होगा। दूसरे

दौर के मुकाबले रविवार को खत्म होंगे। तीसरे दौरके जार क नुकाबल रायवार का खान होगा तासर पारक मुकाबले तीन-चार अक्टूबर को और आखिरी राउंड 28 –29 नवंबर को ग्रेटर नोएडा के बुद्ध सर्किट पर होगा। ज़ेके टायर मोटर स्पोर्ट्स प्रमुख संजय शर्मा ने

हाना जिन दानर मार्ट स्वाट्स ब्रुचुन संजन स्वास आकर्षण दो विदेशी ड्राइवर हैं। आर्यटन सेना को अपना आदर्श मानने वाले इटली के लोरेंजो कैंपलेस और किमी रेकोनेन को आदर्श मानने वाले मिलान के

कोंस्टेनटिनो पेरोनी भारतीय रेसर्स के सामने कडी

कॉस्टेनटिनो पेरोनी भारतीय रेसर्स के सामने कड़ी चुनीती पेश करेगा संजय ने ने कहा कि यह एकमात्र ऐसी चैंपियनशिप है जो एक ही प्रमोटर के साथ अटारहर्जे वर्ष में प्रयेश कर चुकी है। हमारे लिए यह बड़ी खुशी की बात है कि खेल मंजालय ने भी भोटर स्पेट्स के जा मान्यता दे दी है और उम्मीद की जा रही है

है कि अगले साल एफवन की फिर से बुद्ध सर्किट में

वनडे में यह पहला अर्धशतक है। जेम्स टेलर ने 49 और करान इयोग मोर्गन ने 38 रन का योगदान दिया। आस्ट्रेलिया की तरफ से शेन वाटसन, नाथन कूल्टर नाइल, पैट कमिन्स और मिशेल स्टार्क ने दो–दो विकेट लिए जबिक मिशेल मार्श और ग्लेन मैक्सवेल ने एक-एक विकेट हासिल किया। मोर्गन ने बाद में कहा कि हमने बीच के दस-पंद्रह ओवरों में मैच गंवाया जब आस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। हमारी शुरुआत बहुत अच्छी रही। हमें वैसी शुरुआत मिली थी जैसी 305 रन के लक्ष्य का पीछा करने ता था जसा 303 रन के लेक्य की पाछा करन लिए चाहिए थी। इंग्लैंड जब लक्ष्य की तरह अच्छी तरह से

आगे बढ़ रहा था तब उसने बिना कोई रन जोडे तीन विकेट गंवा दिए। इनमें मोर्गन का विकेट भी तान ।वकट गवा ।दए। इनम मागन का ।वकट मा शामिल है जिन्होंने 38 रन बनाए। कूल्टर नाइल एक समय हैट्रिक पर थे लेकिन राशिद ने उन्हें यह उपलब्धि हासिल नहीं करने दी। इससे पहले आस्ट्रेलिया को वार्नर (59) और जो बर्न्स (44) ने पहले विकेट के लिए 76 रन जोड़कर अच्छी शुरुआत दिलायी। वार्नर ने इसके बाद कप्तान स्टीवन स्मिथ (44) के साथ दूसरे विकेट के लिए 57 रन जोड़े। वार्नर और स्मिथ की साझेदारी

प्रशिक्षण के लिए अमेरिका जाएंगे सुशील

ज्यादा ओलंपिक कोटा हासिल कर सकें। इस

ज्यादा आलापक काटा हासिल कर सका इस ट्र्निटर में दर बजन वर्ग में टाप कुण एक्टवानों को ओलांपिक कोटा मिलना है। विश्व विपियनशिंग से खुद के हटने के बारे में सुशील ने कहा कि मैं पूरी तरह फिट नहीं था और मेरा उसूल है कि मैं जब भी मैट पर उत्तर्क हो अपना आध्ये प्रिक्तने करना या अपूर्व फिटनेश के साथ अखाड़ में उत्तरना टीक वर्ग के अपने स्था अखाड़ में उत्तरना टीक वर्ग है अपने स्था अखाड़ में उत्तरना टीक वर्ग है अपने स्था कर हो कि स्था कर हो है स्था कर हो है से स्था कर हो है स्था कर हो है से स्था है स

नहीं है। इसकी वजह से किसी दूसरे का मौका छिन जाए, मैं ऐसा नहीं चाहता। किसी और को मौका मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उनके 74 किग्रा के वजन वर्ग के पहलवान

वापसी होगी। मैं आपके सामने गर्व से यह बात कह

सकता हूं कि मोटर स्पोर्ट्स ने देश में अपना मुकाम हासिल कर लिया है।

बार चैंपियनशिप में उतरेंगे जो इस बात का पतीक है

बार चापयनाशप में उतरण जा इस बात का प्रताक ह कि यह नेशानत रेसिंग अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी है। चार महिला रेसरों की भागीदारी और दो विदेशी रेसरों का चैंपियनशिप में शामिल होना हमारे बढ़ते

कदम का प्रतीक है। जेके रेसिंग इंडिया सीरीज में 12

फदम का प्रताक है। जक रासने इंडिया साराज में 12 रेसर व फामूर्ला एलजीबी फोर और वेंटो कप में 22-22 रेसर उतरेंगे। इंडिया सीरीज के विजेता को टीम यूरो इंटरनेशनल की तरफ से फामूर्ला थ्री में टेस्ट

करने का मौका मिलेगा जबकि एलजीबी फोर और

वेंटों कप के विजेता को अगले साल इंडिया सीरीज में

पुरी तरह प्रायोजित ड्राइव मिलेगी

संजय के मुताबिक हमने इस चैंपियनशिप का इस तरह विस्तार किया है कि अब लगभग देश के हर कोने से रेसर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मध्यप्रदेश के रीवा, सिक्किम, असम, महावलीपुरम,अमदाबाद, केरल और उत्तर भारत से काफी संख्या में रेसर इस

जेके टायर रेसिंग का दूसरा दौर आज से

जूनियर महिला एशिया कप में जीत से शुरुआत करने उतरेगी भारतीय टीम **जनसत्ता संवाददाता** नई दिल्ली, 4 सितंबर। भारतीय जूनियर महिला हाकी टीम शनिवार को एशिया कप में उत्तर कोरिया के खिलाफ नाव (रहरण, 4 (सतबर) सांशाय भूगन्य राहारण हानका दान सानाया का एश्या कथ म उत्तर काराय का जात्याक अगना आभियान दानदार तमीके से मुरू करोगी। कार्योच एक महीना अग्याम शिविद मी बताने के बाद हिखाड़ियों का मनोबल कंचा है और टीम पूरे भरोसे के साथ उत्तरेगी। एशिया कप चीन के बांगाड़ में खेला जारहा है। भारतीय जुनियर टीम पूल मुकाबले में उत्तर कोरिया के अलावा चीन, मलेशिया और सिंगापुर से गिझेगी। यह टूर्नामेंट अगले साल होने वाले जुनियर हाकी विशय कप का बवालीमायर भी है। भारतीय स्टार फारवर्ड गुनी की अगुआई बाती

साल होने वाले जुनियर हालते विश्वच कप का कवालीमाजर भी है। भारतीय रदम रफारवर्ड गर्नी की अंगुआई वाली टीम में कई अनुभवी खिलाई है जो सीनियर पीक न कर रही है। उनी के साथ अग्रिम पंक्ति में अनुम वाली, पुनम बाली, पुनम बाली, पुनम बाली, पुनम वाली, व्यक्ति कीर और सीनिया है। उनी ने हाल में वोल्वो आमंत्रण टुनीमेंट में अच्छा प्रश्नमें किया था जिसमें दोम तीसरे स्थान पर रही थी। उप कप्तान नवजीत कीर और प्रतिभाशाली लिली चानू मध्यपित की हाम्मेवाई योगलीमी। नवजीत, जानू लिलिया मिंव अर्थे राष्ट्रका अपना सीनियर वर पूजी है। हिफ्से में अनुभवी चीम ग्रेस एक्का, निमता टोप्पो और पेनल्टी कार्ना विशेषज्ञ अस्प्रीत कीर है। गोलची इंटप्रीत कीर टूनीय की साम दिन्मी की आक्रमण को नाकाम करने में पूर्व तरह सक्षम है। भारत और उत्तर कीरिया खेनी एक इसरे से एक्ती बार रिक्टो और उत्तर कीरिया खेनी एक इसरे से एक्ती बार रिक्टो और उन्तर कीरिया खेनी एक इसरे से एक्ती बार रिक्टो और उन्तर कीरिया खेनी एक इसरे से एक्ती बार रिक्टो और उन्तर कीरिया खेनी एक इसरे से एक्ती बार रिक्टो और उन्तर कीरिया खेनी एक इसरे से एक्ती बार रिक्टो और उन्नर कीरिया खेनी एक इसरे खेल को समझना चुनीती होगी। भारतीय टीम हालांकि अधिक अनुभवी है। टूर्नीमेंट में नी टीमें हिरस्सा ले रही है।

हेरंब की उम्दा गेंदबाजी. बालाजी अकादमी फाइनल में

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 4 सितंबर। हेरंब शर्मा की उम्दा गेंदबाजी की मदद से बालाजी क्रिकेट अकादमी

नइ। तरला, 4 सलबर हिन्द सभा का उन्दा गत्यां का का मा उत्पाद गाया का अपने व्याचित है। जाए दे विच है विद्यापत है। विद्यापत है कि इस है। विद्यापत है। व ज्यादा 87 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए विजेता टीम ने चार विकेट पर 168 रन बना

लगे। बर्न्स के रूप में पारी का अपना पहला विकेट लेने वाले गणिद ने वार्नर को भी पवेलिय विकट लेन वाल राशिद न वानर का भा पवालयन भेजा और फिर स्मिथ और जार्ज बेली (23) को भी आउट किया। ग्लेन मैक्सवेल भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे और मार्क वुड की गेंद पर विकेट के पीछे कैच दे बैठे।

विकट के पाछ कचे दे बठ। वाटसन की खराब फार्म जारी रही। वह केवल छह रन बनाकर रन आउट होकर पवेलियन लौटे। आस्ट्रेलिया के लिए अच्छी बात नेपारियो राहि जिल्ह्याती में राहिए जिल्ह्या थी कि उसके पास आठवें नंबर तक मंडी हुए बल्लेबाज थे। वेड और मार्श ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की लेकिन बाद में बड़े शाट भी खेले। वेड ने विशेष रूप से तेजी शाट भा खला वह न विशष रूप स तता विस्त्रायों और 40 गैंदी पर ननड़े में अपना छटा अर्थशतक पूरा किया। वेड ने अपनी पारी में 50 गैंद खेली और 12 चौंके लगाए। मार्श ने स्ट्राइक रोटेट करने को भूमिका अच्छो तरह से नियाध उनकी 34 गैंद की पारी में दो चौंके और एक छक्का शामिल है। मार्श ने यह छक्का पारी के अस्ति सामित है। मारा ने यह छक्का पार क आखिरी ओवर में क्रिस वोक्स पर लगाया जिससे कि टीम का स्कोर 300 रन के पार पहुंचा। दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की सीरीज का दूसरा मैच शनिवार को लाइसं में खेला जाएगा।

नरसिंह यादव के बारे में सुशील ने कहा कि वे एक बेहतरीन पहलवान हैं और विश्व चैंपियनशिप के लिए जाने से पहले मैंने उनसे

चापवनाशप के लिए जान से पहले मेन उनसे कहा था कि अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करना। नरसिंह ने भी वादा किया है कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। सुशील ने यह भी

कहा कि वे हमेशा अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को

चाहत है। उन्होंन कहा कि देश के लागा का मुझसे हमेशा उम्मीदें रहती हैं और मैं उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता हूं। विश्व चैंपियनशिप के बाद सात-आठ टूर्नामेंट और होंगे जिनसे मैं ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर सकता हूं।

जाशायक के लिए क्यालकाई कर सकता हूं। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता के गुरु महावली सतपाल ने कहा कि ओलंपिक में एक साल शेष रहते क्वालिफाई करने की होड़ तेज हो चुकी हैं। हमें विश्व चैंपियनशिप में

अपने पहलवानों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद

। सुशील ने अपना अभ्यास शुरू कर दिय और वे रोजाना चार-पांच घंटे अभ्यास क

ह और व राजाना चार-पाच घर अभ्यास कर रहे हैं। सुप्रोत का एक ही लक्ष्य है रियो ओलंपिक में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना। पद्मभूषण से सम्मानित द्रोणाचार्य अवार्डी सतपाल ने कहा कि हाल में विश्व कैंडेट कुश्ती प्रतियोगिता में मेरे शिष्य अनिल ने स्वर्ण

ु पदक जीता जो एक बड़ी उपलब्धि है। अनिल चार साल से मेरे पास है और इस लड़के में

ओलंपिक में देश के लिए पदक

एटीके की बड़ी जीत सेगोविया (स्पेन), 4 सितंब (भाषा)। मौजूदा चैंपियन एटलेटिको डि कोलकाता ने अपने पहले मैत्री मैच में जिम्नास्टिका सेगोवियना

सीएफ की अंडर-19 टाम ५० . से करारी शिकरत देकर इंडियन सुपर - - - के दसरे सत्र

लीग फुटबाल टूर्नामेंट के दूसरे सह के लिए अपनी तैयारियों का पुख्त

सबूत पेश किया। एटीके के मार्की खिलाडी हेल्डर पेस्टिगा ने हैटिक

बनाई। केरल ब्लास्टर्स एफसी की तरफ से खेल चुके इयान ह्यूम ने

गुरुवार को अल एस्पिनार के लास एंजिल्स डि सान राफेल मैदान पर गए खेले मैच में दो गोल करके उनका अच्छा साथ दिया। ज्वेल राजा ने भी एक गोल किया जबकि

रपेन के तीनों खिलाडियों गैविलान

### द्रविड़ चाहते हैं टैस्ट में पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करें रहाणे

मुंबई, 4 सितंबर (भाषा)। टैस्ट क्रिकेट में अजिंक्य रहाणे के बल्लेवाजी क्रम को लेकर चल रही बहस में हिस्सा लेते हुए पूर्व भारतीय कप्तान वहुल द्रविड़ ने शुक्रवार को कहा कि वे चाहते हैं कि राजस्थान रायल्स टीम में अपक् न चुक्रनार का कहा कि ये बहुत हो का अल्यान प्रपर्द होने में एक समय उनके साथी रहे यह बल्लेबाज पांचवें नंबर बल्लेबाजां करे, तीसरे नंबर पर नहीं जहां वह श्रीलंका के खिलाफ अंतिम दो टैस्ट में खेलने उत्ते थे। पूर्व टैस्ट सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा की किताब 'द इनसाइड़'

थी पूर्व टेस्ट सलामी बल्लेबाज आकाश चापड़ा को किताब "र इनसाइड" के लोकापण के मौक ए मडिवड़ ने उसने कहा कि यो पांचने ने तर पर अखें, हैं, खां तक कि चौंथे नंबर पर और साथ ही वे दूसरी नई गेर का सामना करने को भी नैयार रात है। डिवड़ ने सावाल पूछा था कि अजिंक्य तीतरे नंबर पर या पांचने नंबर पर, आप क्या चाहते हैं। रहाणे दिक्षण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया के दौरे पर पांचने नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए भारत को आर से निसंत प्रदर्शन करने चाले मध्यक्रम के बल्लेबाज रहे लेकिन आंत्रका के विखाफ दूसरे और तीतरे टैंटर में उन्हें तीरारे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए ऐंगा गया जिसके बाद उनके क्रम को लेकर बहरत शुरू हुई। रातणे ने कहा कि स्मेक पर्यंग होंगा की का आर केन्य नंबर शुरू हुई। रातणे ने कहा कि टीम के पांच गेंदबाजों के साथ खेलने से बल्लेबाजों पर न कहा कि टान के पाँच पंचाणा के साथ खरान से चरराचाणा कर किम्मेदारी आ जाती है कि वे टैस्ट जीतने के लिए 20 विकट चटकाने के लिए गेंदबाजों को पर्याप्त समय दें। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टैस्ट में भारत की जीत के दौरान शतक जड़ने वाले रहाणे ने कहा कि श्रीलंका में हमारी मानसिकता यही थी।

### HCL TECHNOLOGIES LIMITED

### PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the following equity share certificate of face value of Rs. 4/- each issued by the Company is stated to have been lost and the Company is

Name of the Shareholder(s)		Certificate Distinctive		No. of Shares
Vipin Agarwal	37585		137339814-137339863	

v\_varaquava [x-costs | 287435 | 137338914-137339895 ] 50 | Any person(s) who hash'ave any claim(s) in respect of the said share certificate should older such claim(s) with the Company or its Rejestor & Shares Transfer Agent, along with sufficient proof, within 10 days of publication of this notice, after which no claim(s) shall be entertained and the Company will proceed to issue depicted share certificate. The public is hereby warred agained purchasing or dealing in any way with the above share certificate. Any person dealing with the above share certificate shall be doing so solely at history even with six to costs and consequences and the Company shall not be responsible for it in any manner whatsoever.

Our Transfer Agent: Alankit Assignments Limited Unit: HCL Technologies Limit 205-208, Anarkali Market

Manish Anani handewalan Extension lew Delhi-110055

### JMT AUTO LIMITED

An AMTEK Group Company
CIN: L/2274D1 1997PL-(279039)
sgd.Office: 3.LSC,Pamposh Enclave, Guru Nanak Mark
Opp.LSC Market, New Delhi - 110 048
E-mail: jmt.auto@amtek.com; Phone: 0657-6626340
Website: www.jmtauto.com
NOTICE OF 28TH ANNUAL GENERAL MEETING

## NOTICE OF 28TH ANNUÁL GENERAL MEETING The 28th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, September 28, 2015 at 000.30 A.M. at Mapple Exotica, Nonday, September 28, 2015 at 000.30 A.M. at Mapple Exotica, Delhi-10074, to transact the business as contained in the Notice dated August 14, 2015, which has been sent to all the Members at their recorded address/email ids. Register of Members and Share Transfer Books of the Company will days inclusively for the purpose of the AGM. Date of completion of sending of Moisces: September 4, 2015. Notice of the AGM has been uploaded on the website of the Company The Company is pleased to provide to its Shareholders electronic volting (e-voting) facility through CDSL, on all the resolutions set forth in the Notice dated August 14, 2015. Date and time of remote e-voting: Starts from Friday, September 27, 2015 (500 pm. IST) and will end on Sunday, September 27, 2015. The Cut-off date for dispatch of notice and remote e-voting is September 27, 2015.

The cut-off date for dispatch of notice and remote e-voting is September 21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21, 2015.

21,

### वाल्डो और अराता इजुमी ने भी एक-एक गोल दागा।

क्रि इलाहाबाद बैंक अबत कार्यातम के क्रिए)
अबत सम्पत्ति के क्रिए)

शाखा का	ऋण्यारक एवं गारंटरों का नाम	संपत्ति गिरवी रखी गई/	बकाया राज्ञि (बारा 13(2) व
नाम		चार्न्ड का विवरण	अंतर्गत सूचना में यथा वर्णित
कृष्णा नगर दिल्ली–51	ऋणधारकः मैं। नंदन ओसवात होसरी फैक्टरी। प्रीठ विनोद कुमर चीन, मार्गेठ। 155, गदी नंछ, वैस्ट आजाद नगर, दिल्ली—51 मारंटर: श्रीमती किरन चीन, मार्गेठ 155, गदी नंछ, वैस्ट आजाद नगर, दिल्ली—51 विकास चीन, मार्गेठ मार्गेठ 155, गदी नंछ, वैस्ट आजाद नगर, दिल्ली—51	1) म0नं0 155, गली नं08, वैस्ट आजाद नगर, दिल्ली—51 2) म0नं0 153—11ए, प्लाट नं0 19, गली नं08, वैस्ट आजाद नगर, दिल्ली—51	धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना द्वारा मांग की ग 01.06.2015 को रु. 98,90,584/— तथा सा में उस पर आगे का ब्याज तथा लागत एवं खर्च।

### 🚇 कार्पोरेशत बैंक

ı	क्रम सं. क्रेडिट का प्रकार		स्वीकृत सीमा	शेष बकाया			
ı	1 CHOME/01/60015		2500000.00	2547263.00			
	अतः उपरोक्त सूचन	। । के अनुसार ऋगधारक के रूप में आप सं. 1 एव	l 2 को इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीत	र वैंक को मासिक दरों पर मिश्रित 14.5% की द			

### शर्मिला ने साल का पहला खिताब जीता

ग्रेटर नोएडा, 4 सितंबर (भाषा)। स्टार गोल्फर शर्मिला निकोलेट ने गिरो महिला पेशेवर गोल्फ टूर के 15वें चरण के अंतिम दिन शुक्रवार को हारा नोहरा। रापेदा रामि हूं या उन्य रापित वर पर का आता मही शुक्रावार का एक अंडर 71 का स्कोर बनाकर साल का अगना पहला खिताब जीता। जेपी ग्रीमत में खेली गई इस छह लाख रुपए इनामी प्रतियोगिता में शर्मिया से तीन शार पिछे अगनवीप झाल कुल 215 के राके के साथ बूस्ते पर पर रही। शर्मिला ने पहले नी होल में कोई बोगी नहीं की और इस बीच छठे और आठवें होल में बर्डी बनाई। अंतिम नौ होल में हालांकि वह दसवें, 12वें और 15वें होल में बोगी कर गई जबकि इस बीच उन्होंने ५सर, 1/24 आर 15व काल में बागा कर गई जबाक इस बाय उन्होंन गोचे और 13ई होल में बढ़ी बनाई। उनका 54 होल का स्कोर 212 रहा। दिल्ली की बाणी कपूर और कोलकाता की नेहा त्रिपाठी समान 220 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रही।

### CAREER POINT LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING,

### E-VOTING AND BOOK CLOSURE

ean the Notice of AuAN.

Ic copies of the Notice of 15th AGM alongwith Annual Report for year 2014-15

sen sent to all members whose email id are registered with the
y/Depository Participant(s). Physical copies of the same have been sent to
or of the Company at their registered address in the permitted mode. Copy o
Report and Notice of AGM is also available on Company's website.

acidating e-voting, for evoting instructions, members may refer to the Net the Company shall provide ballot papers for voting to the members per meeting. The persons who have become Members of the Company after notice may obtain the Login ID and passworld as mentioned in the Instruction sited on the website of the Company. The Company has appointed Serutiniz

Tarun Jain GM (Corporate & Legal Affairs) & Company Secretary

### ARCOTECH LIMITED

NOTICE OF E-VOTING

RN Pattanayak (WHOLE TIME DIRECTOR)

### ŧ , VINAYAK P⊕LYC⊕N Internati⊕nal Ltd.

CIN: L25209RJ2009PLC030620

पंजी. कार्यालयः 312, नवजीवन कॉम्प्लैक्स, 29, स्टेशन रोड, जयपुर-302006 (राज.) भारत, टेली. नं. +91-141-2377007

### र्षिक साधारण सभा, पुस्तक बंद होने तथा ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

महार असे पानेचा पूर्व आहे तथा पान का प्रकार है। पानचार मार्थ के दिवस के प्रकार के प्रकार के प्रकार है। प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार कर देने के पान सरावी को उसमें प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार कर देने के प्रकार कर प्रकार के प्रकार कर प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार कर प्रकार के प्रकार कर प्रकार के प्रकार के प्रकार कर प्रकार कर प्रकार के प्रकार कर 1-127/207 पत्र की तथे।

, जवपुर-302। ह बंद होनाः पुस्तक वर्ष होना: कम्परी अधिविषम, 2013 को पात 91 तथा कम्पनी (प्रबंध एवं प्रसासन) नियमावर्सी 2014 के नियम 101 प्रचिचन अर्जुपारे के स्वर्णन 16 के अनुप्ततन में सहरत्वें के रिकटर तथा कम्पनी की शेवर अंतरण पुर रविवार, 20 सितंबर, 2015 से सनिवार, 26 सितंबर, 2015 (देजों दियस सहित) तक बंद देतेंं।

### कर मैच जीत लिया। रोहित शमी 45 रन बना कर नाटआउट रहें। पीएमजी की जीत में ऋषभ चमके ऋषभ शमीं (99) व अवरार (44) की उम्दा बल्लेबाजी की मदद से पीएमजी ने परमजीत सिंह मेमोरियल क्रिकेट में मद्रास क्लब को 90 रनों से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए विजेता टीम 219 रन पर आउट हो गई। शौर्य सरन ने 24 रन पर चार और तहसीन ने 19 रन देकर तीन विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए मद्रास क्लब की टीम नी विकेट पर 129 रन ही बना सकी। तहसीन ने 51 रन बनाए। शिवम व कुसारग ने तीन-तीन विकेट चटकाए।

कर मैच जीत लिया। रोहित शर्मा 45 रन बना कर नाटआउट रहे















जयपुर शनिवार ५ सितम्बर, २०१५



नाम : अशोक मेहता शिक्षा : स्नातक पद : प्रॉपराइटर स्थापना वर्ष : 1984

### रीवा इन्टरनेशनल

रॉकवुड स्कूल लेन, भुवाणा, उदयपुर-राज फोन नं.: 0294-2980185-86-87

ई-मेल : support@herbaldaily.in

उदयपर। विज्ञान ने हर क्षेत्र में बहत प्रगति की है। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में जितनी प्रगति की. उतनी क क्षेत्र म । जतना प्रगात का, उतना ही नित नयी बीमारियां सामने आयी हैं। एलोपैयी क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में जितना विकास हुआ है उतना ही विकास चिकित्सा के अन्य क्षेत्रों में भी हुआ है। एलोपैथी में दवा के सहड इफेक्ट संभव होते हैं लेकिन आयर्वेदिक दवाओं में यह कम या बहुत कम देखने को मिलता है। एलोपैथी के साथ-साथ आयवेंदिक दवाओं के निर्माण में अनेक कम्पनियां बाजार में उतरी हुई हैं लेकिन इससे भी एक कदम आगे हर्बल उत्पादों का प्रचलन बढने लगा है। इन उत्पादों का कोई साइड इफेक्ट भी देखने को नहीं मिलता है। इसमें शहर में एक कम्पनी रीवा इन्टरनेशनल काफी अग्रणी बनी हुई

लाईन कारोबार करने वाले रीवा हन्टरनेशनल के प्रॉपराइटर 51 वर्षीय अशोक मेहता ने 1981 में ग्रेजुएशन कर 1984 में इसकी स्थापना की। हर्बल

### रीवा इन्टरनेशनल

करने के पीछे मेहता ने मुख्य कारण बताया कि पहले वह मार्बल का ट्रेडिंग एवं एक्सपोर्ट के कार्य के साथ-साथ विभिन्न बीमारियों में काम आने वाले हर्बल प्रोडक्ट बनाने का कार्य छोटे तौर . पर करते थे। उन उत्पादों से जनता को लाभ होता देख कर मेहता ने वर्ष 2013 उत्पादन शरू किया।

उत्पादन शुरू (कथा) रीवा इन्टरनेशनल विभिन्न बीमारियों में काम आने वाले 8 हर्बल उत्पादों का



हर्बल डेली नामक ब्राण्ड नेम से निर्माण कर रहा है। शुरुआत में इन्होंने हृदय रोग में ब्लॉकेज खोलने में काम आने वाली हर्बल डेली फाइव एवं एपल साईडर विनयघर नामक उत्पाद की शुरुआत की थी। अब ये विभिन्न प्रकार की बीमारियों ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गठिया, अस्थमा, साईनस, कफ, कोल्ड एलर्जी, एसीडीटी, डायबिटीज, कॉस्टीप्यूशन, कॉलेस्ट्रोल, टॉन्सिल, किडनी में स्टोन, बुढ़ापा रोकने, फेटी लीवर. पार्किन्सन. पेट में अल्सर पेटिक, गेस्टिक, अल्सर, मेमोरी लॉस, अनियमित माहवारी, हार्मोन्स, सिरदर्द आदि बीमारियों के लिए रीवा इन्टरनेशनल हर्बल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। इन बीमारियों में काम आने वाले उत्पादों को करीब 70 से 80 प्रतिशत

क ऑर्डर रिपीट करते हैं। मैन्<mark>यूफैक्चरिंग:</mark> मेहता बताते हैं कि

काम आने वाले सेव शिमला व अलवर से शहद मंगाते हैं।

मार्केटिंग: रीवा इन्टरनेशनल अपने उत्पादों की मार्केटिंग डायरेक्ट एवं ऑनल लाईन करते हैं। www.herbaldaily.in के जरिये डायरेक्ट कंज्यूमर सेलिंग करते हैं जिस कारण ग्राहकों को उत्पाद शद्ध एवं कम कीमत में मिलता है। करीब 10 लोगों को रोजगार देने वाले मेहता बताते हैं कि उनके उत्पादों का कोई प्रतिद्वंद्वी

भावी योजनाः निकट समय में पूरे देश में 20 सेंटर खोलने की योजना है जिसमें सर्वप्रथम आगामी 3-4 माह में दिल्ली की योजना बना रखी है ताकि ग्राहकों को शुद्ध उत्पाद कम कीमत में शीघ्रता के साथ उपलब्ध

सामाजिक सरोकारः मेहता सिर्फ अपने कारोबार से ही नहीं वरन विभिन्न जपन कार्रवार स हो नहीं चरन् ।वानन सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। मेहता स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रियल एसोसिएशन, उदयपुर मार्बल एसोसिएशन, जैन समाज से जुड़े हुए हैं। प्रथम वर्ष में ही बिक्री 1 करोड़

पार: रीवा इन्टरनेशनल ने अपने कारोबार के प्रथम वर्ष में ही ऑन लाईन बिजनेस में 1 करोड़ 11 लाख की रिटेल बिक्री की है। रीवा इन्टरनेशनल डब्ल्यूएचओ-जीएमपी, एफएसएसएआई, एचएसीसीपी से एपूब्ड है। कम्पनी आईएसओ 22000:2005 से सर्टिफाइड है जो हाल गत 20 जून को मिला है। -निजी संवाददाता

### मरीजों की जांच में तो कमीशन मत खाइए!

जितनी ज्यादा जांचें, उतना अधिक कमीशन कमीशन के लिए अपनी सेटिंग वाली पैथोलॉजी पर ही मरीजों को करते हैं पेफर

जोधपुर। शहर सहित जिले में कमीशन का धंधा मरीजों की जेब की सेहत बिगाड रहा है। यह कमीशन सीधे चिकित्सकों की जेब में जाता है। कमाई के लिए जरूरत से अधिक जाती है। जनाई के लिए केल्स्स से जावक जांचें कराने का भी खेल होता है। आलम यह कि बड़े-बड़े अस्पतालों में जांच की सुविधा होने के बावजूद सरकारी अस्पतालों के आस-पास बने डायग्नोस्टिक सेंटर्स की मौजूदगी कमीशन के इस खेल की ओर

इशारा करते हैं। 60 परसेंट तक फिक्स होता है कमीशन: प्राइवेट पैथोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स मरीज भेजने वाले डॉक्टर्स को 20 से 60 परसेंट तक का हमीशन देते हैं इसीलिए 500 रुपए में होने वाली जांच 2500 रुपए की पहुंच जाती है। यही हाल अन्य जांचों का भी है। डॉक्टर्स को कमीशन के बदले बाकायदा एक पैकेज भी ऑफर होता है। बीमारी का डर या सरकारी पैथोलॉजी में गुणवत्ता की कमी को लेकर

पैथोलॉजी जांच के नाम पर खेल

100

मजबर किया जाता है। आईएमए भी समय-

समय पर ऐसी प्रवृत्ति पर हैरानी जताता रहा है लेकिन डॉक्टर्स की लालची प्रवृत्ति मरीजों

की जेब पर लगातार डाका डाल रही है। इस

कमीशन के खेल में 90 परसेंट तक सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर शामिल हैं।

दौरान ही रेजीडेंटस पर अपनी सेटिंग वाली

500 2500 से 3000

800

सीटी स्कैन

मल्ट्रासाउंड

हेपेटाइटिस बी

पैथोलॉजी सेंटर तो रेजीडेंट डॉक्टर्स को मिलने वाली सैलरी से ज्यादा उन्हें कट यानी कमीशन देते हैं। मेडिकल कॉलेज प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजद ट्रोमा सेंटर, बाल रोग विभाग, सर्जरी के डॉक्टर्स की पैथोलॉजी सेंटर्स से सेटिंग एमआईआरआई, सीटी स्कैन के लिए निजी डायग्नोस्टिक सेंटर्स ने कमीशन के बिजनेस को सबसे ज्यादा

बढ़ावा दिया। जांच में अधिकतम 500 रुपए लगते हैं लेकिन डॉक्टर को 500 से लेकर 2000 रुपए तक का कमीशन दिया जाता है। जितनी ज्यादा जांचें, उतना अधिक कमीशन। फिर चाहे जांच के आधार पर मरीज का इलाज होना हो या न हो। जालोरी गेट. शास्त्री नगर व हॉस्पिटल के आसपास बनी पैथोलॉजी लेब में मरीजों को जांच करवाने के लिए भेजा जाता है जबकि

करवान के लिए भंजी जाता है जेबाक मध्यदास माध्युद्ध अभ्यताल में मीटी स्केन, एमआरआई की भी सुविधा है। इसके अलावा सामान्य जांच जेंद्र हैंद्र बंद्र बंद्र वार्याय प्रमान्य केंद्र वार्याय केंद्र वार्याय एमआपीटी, एसजीजीटी, प्लेटलेट काउंट में 20 से 40 परसेंट तक का कमीशन होता है। इन डायग्नोस्टिक सेंटर्स में न

एचआईवी नि:शुल्क 500 क्र**तग्** जांचः मरीज का इलाज बहुत हामॉन टेस्ट 200 850 ह्द तक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स पर मरीजों को प्राइवेट पैथोलॉजी में जाने को हिथेंड करता है। जिस तरह सही जांच रिपोर्ट के आधार पर मरीज की जान बचाई जा सकती है, उसी तरह गलत रिपोर्ट से मरीज की जान भी जा सकती है। सिटी में चल रहे ज्यादातर पैथोलॉजी सेंटर्स का कोई भरोसा नहीं है। सिटी में लगभग 600 में से सिर्फ 150 पैथोलॉजी सेंटर्स क्वालिफाइड डॉक्टर्स के सपरविजन में चल रही हैं बाकी 450 लैब

सैलरी से अधिक मिलता है कमीशन: कमीशन के इस खेल में मेडिकल कॉलेज के टीचर्स से लेकर कई रेजीडेंट तक क सुपरावजन म चल रहा है, बाका 450 लब अन्ट्रेंड लोग चला रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ प्रैक्टिसिंग पैथोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट के शामिल हैं। कुछ रेजीडेंट जानबूझकर ऐसा करते हैं तो कुछ से सीनियर्स दबाव डालकर करवाते हैं। कई सीनियर प्रोफेसर पढ़ाई के प्रेसीडेंट डॉ. पी.के. गुप्ता के अनुसार किसी भी लैब में जांच कराने से पहले डॉक्टर के बारे में जानकारी जरूर लें। यदि पैथोलॉजिस्ट पैथोलॉजी सेंटर से जांच कराने को मजबूर करते हैं। रेजीडेंट कमीशन के लालच से यह मौजूद हो तभी जांच कराएं, साथ ही रिपोर्ट लेने के बाद वहां के डॉक्टर से अपनी जांच खेल शुरू करते हैं। शहर में बड़े-बड़े कई के बारे में चर्चा जरूर करें। डॉक्टर का नाम



और दियी भी देखें।

टीक नहीं है क्योंकि कलेक्शन सेंटर से घंटों बाद दूर स्थित सैम्पल पैथोलॉजी में पहुंचाया जाता है। ट्रांसपोर्ट के दौरान सैम्पल खराब हो सकता है। दो से तीन घंटे में जांच न की गई और कोल्ड चेन मेन्टेन नहीं किया गया तो आरबीसी टूट सकते हैं जिससे रिपोर्ट बदल सकती है और फिर उसी से मरीज का इलाज होगा जो कि खतरे से खाली नहीं है। सरकारी अस्पतालों के सामने

पैथोलॉजी: मेडिकल कॉलेज से संबद्ध मथुरादास माथुर, महात्मा गांधी व उम्मेद हॉस्पिटल के अलावा अन्य हॉस्पिटल्स के सामने दर्जनों पैथोलॉजी सेंटर्स और कलेक्शन सेंटर्स चल रहे हैं जिनमें सरकारी डॉक्टर्स की मिलीभगत से जांच हो रही है जबकि सरकारी हॉस्पिटल्स में कम रेट में विश्वसनीय जांच होती है। दलालों और कमीशन के चक्कर में ये पैथोलॉजी सेंटर्स चल रहे हैं।

-निजी संवाददाता

### इनके अनुसार.

अगर एक ही प्राइवेट पैथोलॉजी सेंटर में जांच को मजबर किया जाता है तो गलत है। यह मरीज का अधिकार है कि वह कहां जांच कराए। सरकार को इसके लिए सख्त नियम बनाकर उन्हें लाग करना होगा ताकि सभी जगह एक जैसे रेट्स हों।

त्र हो। डॉ. अरविंद माथुर, पूर्व प्राचार्य, एसएन मेडिकल कॉलेज, जोधपुर

### समारोहों में रात 11 बजे बाद केटरिंग नहीं करने का निर्णय

### उदयपुर केटरिंग एसोसिएशन ने लिये अनेक निर्णय

**उदयपुर ।** शादी व अन्य समारोहों में देर रात तक आयोजकों द्वारा गर्म खाने की मांग करना, केटरिंग के साथ-साथ अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे उदयपुर केटरिंग डीलर्स समिति ने यह निर्णय लिया है कि अब रात्रि 11 बजे बाद केटरिंग नहीं की जाएगी।

समिति अध्यक्ष दिलीप सुराणा ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि आमतौर पर शाम 5 बजे तक शादी समारोह में विभिन्न वैरायटियों के साथ खाना तैयार हो जाता है। शाम ५ बजे के साथ खाना पंजार हो जाता है। सान 3 वर्ज तैयार होने वाला भोजन रात्रि 11 बजे बाद तक गर्म खाना सर्व करने में केटरिंग वालों को सर्वाधिक परेशानी का सामना करना पडता है। आ जाती है। समिति ने भी शहर में किसी प्रकार की

अनहोनी नहीं हो. इसके लिए सभी के हित को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त निर्णय लेना पड़ा। केटरिंग वाले एवं लेबर को देर रात अपने गंतव्य पर जाते समय पुलिस प्रशासन की सख्ती का सामना करना पड़ता है। समिति के संरक्षक वीरेन्द्र बापना ने

बताया कि आयोजन स्थल पर देर रात्रि तक जनरेटर चलने से ध्वनि प्रदूषण के साथ-साथ आस-पड़ौस के निवासियों को भी तेज ध्वनि का सामना करना पड़ता है जो उनके स्वास्थ्य

कभी आयोजकों से लड़ाई-झगड़े की नौबत लेबर को खाना नहीं मिल पाता है। लेबर को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए उचित साधन नहीं मिल पाते हैं क्योंकि कुछ स्थानों पर उन्हें तो रात्रि 3-4 बजे तक काम करना पड़ता है। जब तक अतिथि भोजन नहीं कर लेते, तब तक लेबर भी भोजन नहीं कर पाती है। जयपर एवं कोटा एसोसिएशन ने भी कुछ समय पूर्व इस प्रकार का निर्णय लिया था, जिसका सभी ने स्वागत किया। इस अवसर पर गजेन्द्र खाब्या, विक्रम भण्डारी राजकुमार सरूपरिया, मुकेश माधवानी, उमाशंकर सहित कार्यकारिणी के अनेक सदस्य मौजूद थे।

-निजी संवाददाता

### हलवाई कैटर्स एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित



नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कोटा दक्षिण विधायक संदीप

युआईटी की श्रीगिरिराज पुरम आवासीय योजना लांच

कोटा। हाड़ीती हलवाई केटर्स समाम की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य एसोसिएसन कोटा की सत्र 2015-16 की अतिथि नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजेश कृष्ण बिड्ला व उप महापीर कोटा। नगर विकास न्यास (युआईटी) ने शुक्रवार को श्रीगिरिराज परम आवासीय योजना की लॉन्चिंग सीएडी सभागार में की गई। योजना की लॉन्चिंग कमिश्नर ओंकार सिंह ने सनीता व्यास थे। कार्यक्रम में बिडला ने एसोसिएशन के अध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा, संरक्षक सीताराम शर्मा, त्रिलोक पाठक व की। ग्रनित डॉ मोडन लाल याटत ने बताया का। साचव डा. माहन लाल यादव न बताया कि इस योजना में तीन कैटेगरी के कुल 394 भूखंडों के लिए 30 अक्टूबर तक आवेदन किए रम्मू अरोड़ा, उपाध्यक्ष अरुण गुप्ता, अनु अग्रवाल, हंसराज गुप्ता व ललित शर्मा, महामंत्री राजेंद्र सिंह बधेल व कोषाध्यक्ष जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि यह योजना खड़े गणेश जी के पीछे की ओर लखावा के पास है। विनय गुप्ता को पद व गोपनीयता की इसमें सभी आय वर्ग के लिए भूखंड आरक्षित

चिन्हित किया गया है, जिसमें सेंदड़ा, बाली और देसूरी शामिल हैं। इन तीनों रेंज में पौधों की खेप तैयार करना,

पर काम शुरु किया गया है।

फिलराल यह काम वन विभाग

अपने क्षेत्र में कर रहा है, लेकिन

जल्द ही इसे सम्पर्ण रेंज में

### मेरिनो लेमिनेटस की प्रोडक्ट गैलरी की जयपुर में शुरुआत

जारपा अब वस्तुप के पर्ये और ऑफिनेस को रॉवल व पर्यंत लुक देने के लिए बड़े शहरों को ओर नहीं जान पड़ेगा। इंटीएंटर केत्र को निर्माता पूर्व निर्यंत्र करेंद्रों में मिली लेक्ट्रिस रोजन्म में भी करण कहा दिशा है। राज्य में इसकी फल्ती प्रोज्यह गैलती को शुक्रकार को वस्तुप में मुख्याता हुई। यहां में इसकी फल्ती प्रोज्यह गैलती को शुक्रकार को वस्तुप में मुख्याता हुई। यहां इंटीएंटर और एक्सटोरियर डिजाइंगिंग उसलब्ध करहें जाएंगी। मेरिलो इंटोरियर और एक्सटीरियर डिकाइनिंग उपलब्ध कराइ जाएगा। मार्नात लेफिन्ट्रेस्ट के सीनियर मेनेजर सेल्य प्रमेल पृत्ता और सीनियर एकोक्स्यूटिंक, मार्केटिंग चिराग खुराना ने बताया कि इस गैलरी में लोगों को बुढ़ ग्रेस, प्लेन, यूनी प्लस, एमआर एसस बैंसे लेफिन्ट्स उपलब्ध होंगे। इसके अलावा सालिड सफ्तेन्जे, क्लेटिंग सॉल्युस्से, नेबुस्त क्लियर एवंड व बोई, क्यूबिकल्स एवं लॉकर्स की विस्तृत वैरायटी भी मिल सकेगी। इस गैलरी को बडे सैम्पल्स एवं प्रोडक्ट डेमो से सजाया जाएगा। ग्राहकों को डिजाइन व बनावट का अनुभव कराने के लिए यहां मेरिनो लेमिनेट्स की सम्पूर्ण उत्पाद रेंज को प्रदर्शित किया जाएगा। - कार्यालय संवाददाता

2.6 में बार्क कर किया है। यह कर के प्रतिक्र कर किया है। यह कर के प्रतिक्र कर किया है। इस कर के प्रतिक्र कर किया है। इस के प्रतिक्र कर के प्रतिक्र के

बच्चा 307702 पर कार्योशन की कर की तै मिलां उन तमें विष्णों पर बनों दीने ली सिंगी कर वार्योश की हिमां उन तमें दीने ली सिंगी कर वार्योश की सिंगी कर वार्योश की सिंगी कर वार्योश की सिंगी कर वार्योश की सिंगी कर वार्योश कर वार्योग कर वार्योग के सिंगी कर वार्योग के सम्प्रणों के समुष्टा के सिंगी कर वार्योग के सम्प्रणों के सम्प्रणां के सम्प्रणां के स्थान एन के साम्यणों के समुष्टा कर वार्योग कर वार्योग के सम्प्रणां के सम्परणां के सम्प्रणां के सम्प्रणां के सम्परणां के स्थान सम्प्रणां के सम्परणां के सम्परणां के सम्परणां के सम्परणां के स्थान सम्परणां ाता प्राथम के प्राथम के प्राथम के मिलान, 2015 (Henrich (क्षेत्र) 15.00 के प्राथम के प्राथम) में देख एक में प्राथम के प्रायम के प्रायम

वेसारियस फुटायो, उप प्रबंधक सं मुंबई-400001 : ई-मेस he विनोक: 05.09.2015 स्थान: जबपुर र्वी मीर्पाल, फिरोज गीर्जामाथ टॉबर, दसास स्ट्रीट, फोर्ट, ing@cutelindis.com; 18002005S33. प्यासी सेकाय एष्क कम्यूनिकेशमा सि. श्रीपास चीचरी प्रबन्ध निर्देशक एनं सीट्सो Din-00403872

### CAREER POINT LIMITED

अंशधारकों की वार्षिक साधारण सभा. ई-वोटिंग और युक क्लोजर का नोटिस

कॅरिअर पॉइंट लिमिटेंड की ओर से

क्षण जैन स्थान : कोटा जनरल मैंनेजर (कॉर्पोरेट एन्ड दिनांक : 03 सितम्बर, 2015 लिगल एकेयरी) और कंपनी रोकेरेट्री

### वानिकी राजस्थान एवं जैव विविधता परियोजना का शुरू हुआ काम

### प्रदेश के 10 मरुखलीय और 42 रेंज व 5 गैर मरुखलीय जिले हैं शामिल

**पाली।** प्रकृति में मौजूद संसाधन और वन सुदृढ़ीकरण के जरिए अब वन विभाग ग्रामीणों और किसानों के हाथ मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। पहले चरण में जैव विविधना समिनियों के गठन एवं वन सम्पदा संरक्षण जैसे कदम उठाने के बाद अब दसरे चरण में वनों के विकास अलावा महिला स्वयं सहायता

और ग्रामीणों को आय देने जैसे महत्वपूर्ण कार्य शुरु किए गए हैं। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना द्वितीय चरण के तहत काम शुरु हो चुका हैं। इसमें प्रदेश के 10 मरुस्थलीय जिलों की 42 वन रेंज और 5 गैर मरुस्थलीय जिलों की 26 रेंज को भी शामिल किया गया है। इन वन रेंज में आने वाले गांवों 



करने के साथ ही आजीविका संवदर्धन गतिविधियों की भी जानकारी दी जाएगी। इसमें गांवो का समह बनाकर मरुस्थल स्थरीकरण और कृषि वानिकी जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

इस परियोजना के तहत

पाली जिले की तीन वन रेंज को

इनके अनुसार..

इस द्वितीय चरण में कई नई तकनीक दी गई हैं। अपने जिले की तीन रेंज को इसमें शामिल किया गया है। इनमें काम भी शुरू हो चुका है। कृषि वानिकी में महिलाओं और आजीविका संवर्दन में किसानों को

पा हाता। - बालाजी करी, उप वन संरक्षक, पाली